



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1264]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 17, 2007/आश्विन 25, 1929

No. 1264]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 17, 2007/ASVINA 25, 1929

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर, 2007

का.आ. 1770(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ. 660(अ), तारीख 26 अप्रैल, 2007 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी द्वारा तमिलनाडु राज्य के मदुरै जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45बी के 67/800 कि.मी. से 124/894 कि.मी. (तिरुचिरापल्ली-विरालीमलई-मदुरै सेक्शन) तक के भूखण्ड का निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 25 मई, 2007 को "दि हिन्दू" और "डेली थांथी" दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और, आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45बी के 67/800 कि.मी.से 124/894 कि.मी. (तिरुचिरापल्ली - विरालीमलई - मदुरै सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	मुस्वामी / हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मदुरै	मेल्लयूर	(1) कटचिरयानपट्टी	81/9ए	निजी	नम	98	कासी वेलालर पुत्र सात वेलालर
				82/3ए1ए	निजी	नम	48	सेल्वराज पुत्र अलगप्पन
				82/3बी1ए	निजी	नम	287	सेल्वराज पुत्र अलगप्पन
				82/3बी2ए	निजी	नम	340	सीनीयम्माल पत्नी चेल्लम नामक वीराणन
				82/3बी3ए	निजी	नम	890	सेल्वराज पुत्र अलगप्पन
				83/5ए	निजी	नम	429	चेल्लैया पुत्र वीराणन अम्बलम
				83/8ए	निजी	नम	71	अलगु पुत्र वीराणन
				83/13ए	निजी	नम	309	इलवरसु-1 जयरामन-2 पलनी-3 राजेन्द्रन-4 जानकी-5 रासु-6
				83/15ए	निजी	नम	251	सेल्वराज पुत्र अलगप्पन
				83/8बी1	निजी	नम	290	मीनाक्षी पत्नी सुब्बैया
				429/2ए	निजी	शुष्क	625	अण्णपूरणी-1 पंडिसेल्वम-2 मुत्तुलक्ष्मी-3
				429/3ए1	निजी	शुष्क	14	अण्णपूरणी-1 पंडिसेल्वम-2 मुत्तुलक्ष्मी-3
				429/3जी1	निजी	शुष्क	468	अम्माकन्नु पत्नी अय्यनकोयिल-1 चिन्नमान्दन-2
				429/4ए1	निजी	नम	350	अम्माकन्नु पत्नी अय्यनकोयिल
				429/4बी	निजी	नम	265	अण्णपूरणी-1 पंडिसेल्वम-2 मुत्तुलक्ष्मी-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				429/3ए	निजी	शुष्क	115	अण्णपूरणी-1 पांडिसेल्वम-2 मुत्तुलक्ष्मी-3
			(2) वंझीनगरम	407/1ए2	निजी	नम	112	तंगैया पुत्र आडियप्पन
				409/1बी	निजी	नम	413	सुब्बैया पुत्र एलुमले चेटियार
				409/2	निजी	नम	150	कृष्ण नाडार पुत्र नटराजन
				409/3	निजी	नम	458	रामलिंगम पुत्र कुप्पुसामी सेवै
				409/6	निजी	नम	236	सुन्दररासु पुत्र चोक्कन आसारी
				427/1बी	निजी	शुष्क	252	मारिमुत्तु पुत्र सुब्बैया
				427/3बी2	निजी	शुष्क	130	कृष्णन पुत्र नटराजन-1 राजेंद्रन पुत्र नटराजन-2 सारुमती पुत्री नटराजन-3 वलरमती पुत्री नटराजन-4 राजेंद्रन पुत्र नटराजन-5
				441/6ए	निजी	नम	140	पूजोलै पुत्र करुप्पैया
				441/7ए1	निजी	नम	29	कायाम्बु पुत्र माणिकक्क सेवै
				442/13ए2ए	निजी	नम	344	सेल्वराज पुत्र सुब्बैया
				442/13बी1	निजी	नम	287	कृष्णन पुत्र नटराजन
				442/16ए	निजी	नम	40	वेलुसामी पुत्र रामसामी-1 विशालाक्षी-2
				442/15ए1	निजी	नम	99	बोस पुत्र आतिनमिलकी
				443/10बी	निजी	नम	35	एस. रामसामी पुत्र सप्पानी
				443/11ए	निजी	नम	73	कृष्णन पुत्र नटराजन-1 राजेंद्रन पुत्र नटराजन-2
								सारुमती पुत्री नटराजन-3 वलरमती पुत्री नटराजन-4 पांडियन पुत्र नटराजन-5
				443/12ए	निजी	नम	102	वीरप्पन पुत्र नटराजन
				443/13ए	निजी	नम	90	सुब्बैया पुत्र वेल्लैसामी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				448/9बी	निजी	नम	576	सुब्बैया पुत्र एलुमलै चेटियार
				448/10	निजी	नम	286	एस. रामसामी पुत्र सम्पानी
				448/11ए	निजी	नम	1190	सहायक कमिशनर, एच.आर.&सी.ई
				448/12ए1	निजी	नम	531	एस. रामसामी पुत्र सम्पानी
				448/12बी1	निजी	नम	399	सुब्बैया पुत्र वेल्लैसामी
				448/12सी1	निजी	नम	150	एस. रामसामी पुत्र सम्पानी
				449/10	निजी	नम	434	रामलिंगम पुत्र कुप्पुसामी सेर्वे
				449/11	निजी	नम	900	सुब्बुताई पत्नी पूची चेटियार-1 रामसामी पुत्र पूची चेटियार-2 राजेंद्रन पुत्र पूची चेटियार-3 चन्द्रन पुत्र पूची चेटियार-4 गणेशन पुत्र पूची चेटियार-5
				449/11	निजी	नम	730	सुब्बुताई पत्नी पूची चेटियार-1 रामसामी पुत्र पूची चेटियार-2 राजेंद्रन पुत्र पूची चेटियार-3 चन्द्रन पुत्र पूची चेटियार-4 गणेशन पुत्र पूची चेटियार-5
				449/12ए1	निजी	नम	50	मीनाल पत्नी शन्मुगदेल सेर्वे
				449/12ए2ए	निजी	नम	2038	लक्ष्मी पुत्र आडियप्पन सेर्वे
				449/12बी1	निजी	नम	337	मीनाल पत्नी शन्मुगदेल सेर्वे

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				449/14ए	निजी	नम	686	सुब्बुताई पत्नी पूची चेटियार-1 रामसामी पुत्र पूची चेटियार-2 राजेंद्रन पुत्र पूची चेटियार-3 चन्द्रन पुत्र पूची चेटियार-4 गणेशन पुत्र पूची चेटियार-5
				449/15ए	निजी	नम	466	तवमणी पुत्र वेल्लैचामी-1 रामु पुत्र मुत्तुसामी-2 सुब्रमणियन पुत्र मुत्तुसामी-3 वेलु पुत्र पोन्नुसामी-4 वेल्लम्माल पत्नी सेतुरामन-5
				449/15सी	निजी	नम	12	तवमणी पुत्र वेल्लैचामी-1 रामु पुत्र मुत्तुसामी-2 सुब्रमणियन पुत्र मुत्तुसामी-3 वेलु पुत्र पोन्नुसामी-4 वेल्लम्माल पत्नी सेतुरामन-5
				449/16ए1	निजी	शुष्क	366	मीनाल पत्नी शन्मुगवेल सेवै
				449/16बी1	निजी	शुष्क	265	तमैया पुत्र आडियप्पन सेवै

[फा. सं. 11015/8/2001/भू. अर्जन/डीजीएम/त्रिची]

प्रभाकर, उप सचिव

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**(Department of Road Transport and Highways)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th October, 2007

S.O. 1770(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number **S.O.660(E)**, dated the **26th April, 2007**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) and issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No.45B on the stretch of land from **Km.67/800 to Km.124/894 (Tiruchirappalli – Viralimalai – Madurai Section)** in District Madurai in the State of Tamil Nadu;

And whereas the substance of the said notification has been published in "The Hindu" and "Daily Thanthi", both dated the "25th May, 2007"; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of Section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km.67/800 to Km.124/894 (Tiruchirappalli - Viralmalai - Madurai Section) of National Highway No.45B in the State of Tamil Nadu.

Serial number	Name of the district	Name of the taluk	Name of the village	Survey number	Type of land	Nature of land	Area (in square metres)	Name of the land owner / interested person
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Madurai	Melur	(1) Katchirayanpatti	81/9A	Private	Wet	98	Kasi Velalar S/o Satha Velalar
				82/3A1A	Private	Wet	48	Selvaraj S/o Alagappan
				82/3B1A	Private	Wet	287	Selvaraj S/o Alagappan
				82/3B2A	Private	Wet	340	Seeniammal W/o Chellam @ Veeranian
				82/3B3A	Private	Wet	890	Selvaraj S/o Alagappan
				83/5A	Private	Wet	429	Chelliah S/o Veeranan Ambalam
				83/8A	Private	Wet	71	Alagu S/o Veeranan
				83/13A	Private	Wet	309	Elavarasu - 1 Jeyaraman - 2 Palani - 3 Rajendran - 4 Janaki - 5 Sarasu - 6
				83/15A	Private	Wet	251	Selvaraj S/o Alagappan
				83/8B1	Private	Wet	290	Meenakshi W/o Subbiah
				429/2A	Private	Dry	625	Annapurani -1 Pandiselvam -2 Muthulakshmi -3
				429/3A1	Private	Dry	14	Annapurani -1 Pandiselvam -2 Muthulakshmi -3
				429/3G1	Private	Dry	468	Ammakannu W/o Ayyankoil -1 Chinnamandan -2
				429/4A1	Private	Wet	350	Ammakannu W/o Ayyankoil
				429/4B	Private	Wet	265	Annapurani -1 Pandiselvam -2 Muthulakshmi -3
				429/3-1	Private	Dry	115	Annapurani -1 Pandiselvam -2 Muthulakshmi -3
			(2) Vanjinagaram	407/1A2	Private	Wet	112	Thangaiiah S/o Andiyappan
				409/1B	Private	Wet	413	Subbiah S/o Elumalai Chettiar
				409/2	Private	Wet	150	Krishna Nadar S/o Natarajan
				409/3	Private	Wet	458	Ramalingam S/o Kuppusamy Servai
				409/6	Private	Wet	236	Sundararasu S/o Chokkan Asari
				427/1B	Private	Dry	252	Marimuthu S/o Subbiah

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				427/3B2	Private	Dry	130	Krishnan S/o Natarajan -1 Rajendran S/o Natarajan -2 Sarumathi D/o Natarajan -3 Valarmathi D/o Natarajan -4 Rajendran S/o Natarajan -5
				441/6A	Private	Wet	140	Poonjolai S/o Karuppiah
				441/7A1	Private	Wet	29	Kayambu S/o Manika Servai
				442/13A2A	Private	Wet	344	Selvaraj S/o Subbiah
				442/13B1	Private	Wet	287	Krishnan S/o Natarajan
				442/16A	Private	Wet	40	Velusamy S/o Ramasamy-1 Visalachi-2
				442/15A1	Private	Wet	99	Bose. S/o. Aathinamilaki
				443/10B	Private	Wet	35	S. Ramasamy S/o. Sappani
				443/11A	Private	Wet	73	Krishnan S/o Natarajan -1 Rajendran S/o Natarajan -2 Sarumathi D/o Natarajan -3 Valarmathi D/o Natarajan -4 Pandian S/o Natarajan -5
				443/12A	Private	Wet	102	Veerappan S/o. Natarajan
				443/13A	Private	Wet	90	Subbiah S/o. Vellaisamy
				448/9B	Private	Wet	576	Subbiah S/o. Elumalai Chettiar
				448/10	Private	Wet	286	S. Ramasamy S/o. Sappani
				448/11A	Private	Wet	1190	Assistant Commissioner HR & CE
				448/12A1	Private	Wet	531	S. Ramasamy S/o. Sappani
				448/12B1	Private	Wet	399	Subbiah S/o. Vellaisamy
				448/12C1	Private	Wet	150	S. Ramasamy S/o. Sappani
				449/10	Private	Wet	464	Ramalingam S/o Kuppusamy Servai
				449/11	Private	Wet	900	Subbuthayee, W/o. Poochi Chettiar - 1 Ramasamy S/o. Poochi Chettiar - 2 Rajendran, S/o. Poochi Chettiar - 3 Chandran, S/o. Poochi Chettiar - 4 Ganesan, S/o. Poochi Chettiar - 5
				449/11	Private	Wet	780	Subbuthayee, W/o. Poochi Chettiar - 1 Ramasamy S/o. Poochi Chettiar - 2 Rajendran, S/o. Poochi Chettiar - 3 Chandran, S/o. Poochi Chettiar - 4 Ganesan, S/o. Poochi Chettiar - 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				449/12A1	Private	Wet	50	Meenal W/o. Shanmugavel Servai
				449/12A2A	Private	Wet	2038	Thangaiiah S/o Andiyappan Servai
				449/12B1	Private	Wet	337	Meenal W/o. Shanmugavel Servai
				449/14A	Private	Wet	686	Subbuthayee, W/o. Poochi Chettiar - 1 Ramasamy S/o. Poochi Chettiar - 2 Rajendran, S/o. Poochi Chettiar - 3 Chandran, S/o. Poochi Chettiar - 4 Ganesan, S/o. Poochi Chettiar - 5
				449/15A	Private	Wet	466	Thavamani S/o. Vellaichamy -1 Ramu, S/o. Muthusamy-2 Subramanian S/o. Muthusamy -3 Velu, S/o. Ponnusamy -4 Chellammal, W/o. Sethuraman - 5
				449/15C	Private	Wet	12	Thavamani S/o. Vellaichamy -1 Ramu, S/o. Muthusamy-2 Subramanian S/o. Muthusamy -3 Velu, S/o. Ponnusamy -4 Chellammal, W/o. Sethuraman - 5
				449/16A1	Private	Dry	366	Meenal W/o. Shanmugavel Servai
				449/16B1	Private	Dry	265	Thangaiiah S/o Andiyappan Servai

[F. No. 11015/8/2001/DGM/LAQ/Trichy]

PRABHAKAR, Dy. Secy.

445961/07-3